

R-11827

K-5576

मी

10/2/05

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारत सरकार मुद्रणालय.....

के दिनांक..... को प्राप्त ।

REGD. NO. D.L.-33004/99



प्रभारी

पत्राचार वितरण एकक

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 255
Km 30
Depth 5
CPB 220

सं. 556]

No. 556]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2004/अग्रहायण 26, 1926

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2004/AGRAHAYANA 26, 1926

B. Rasool
14/1/05

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2004

सं. 135/2004-सीमा शुल्क (गै. टै.)

पूरा किया

प्रभारी

रा० वि० एकक

सा.का.नि. 816(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (न्यायनिर्णयन), न्यू कस्टम हाऊस, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली को संयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, एयर कार्गो निर्यात (एस आई आई बी) न्यू कस्टम हाऊस, निकट इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली द्वारा सी. सं. VIII (10) एच क्यू आर एस/ए सी ई/एस आई आई बी/80/2003/5718-23, दिनांक 20 जुलाई, 2004 के तहत मैसर्स एस. एस. वाच इंडस्ट्रीज, बी-1, लोअर शॉपिंग महाराजा कॉम्प्लेक्स, बनीपार्क, जयपुर; मैसर्स रामा वाच इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं. 5, सर्वे नं. 211, वैरावल (शाप्प), राजकोट; मै. श्री गिरवर सिंह, प्रोपराईटर मै. जी. एस. एन्टरप्राइज, जालमुकलां, जिला नागौर, राजस्थान तथा अन्य को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ

(i) सीमा शुल्क आयुक्त, एयर कार्गो निर्यात, नई दिल्ली;

(ii) सीमा शुल्क आयुक्त, अहमदाबाद;

(iii) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, मुंबई; तथा

(iv) सीमा शुल्क आयुक्त, जयपुर

के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/41/2004-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2004

No. 135/2004-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 816(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Central Excise (Adjudication), New Customs House, Air Cargo Complex, New Delhi, to act as,—

- (i) Commissioner of Customs, Air Cargo Exports, New Delhi;
- (ii) Commissioner of Customs, Ahmedabad;
- (iii) Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, Sahar, Mumbai; and
- (iv) Commissioner of Customs, Jaipur,

for the purposes of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. S.S. Watch Industries, B-1, Lower Shopping Maharaja Complex, Banipark, Jaipur; M/s. Rama Watch Industries, Plot No. 5, Survey No. 211, Veraval, (Shapr), Rajkot; M/s. Shri Girvar Singh, Proprietor M/s. G.S. Enterprise, Jalsukalan, Distt. Nagaur, Rajasthan and others issued, *vide*, C. No. VIII (10) HQRS/ACE/SIIB/80/2003/5718-23, dated the 20th July, 2004, by the Joint Commissioner of Customs, Office of the Commissioner of Customs, Air Cargo Export (SIIB), New Custom House, Near Indira Gandhi International Airport, New Delhi.

[F. No. 437/41/2004-CUS.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2004

सं. 136/2004-सीमा शुल्क (गै. टै.)

सा.का.नि. 817(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (न्यायनिर्णयन), न्यू कस्टम हाऊस, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली को अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली द्वारा फा. सं. 50 डी./85/2003-सी आई, दिनांक 27 अगस्त, 2004 के तहत मैसर्स लोकेश गारमैन्ट्स प्रा. लि., 315, पटपडगंज इंडस्ट्रियल एरिया तथा ए-1, सेक्टर-59, नोएडा, उत्तर प्रदेश तथा अन्य को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ

- (i) सीमा शुल्क आयुक्त, अन्तर्देशीय आधान डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली;
- (ii) सीमा शुल्क आयुक्त, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाऊस, नई दिल्ली;
- (iii) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात एवं सामान्य), इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली;
- (iv) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), न्यू कस्टम हाऊस, बल्लार्ड एस्टेट, मुंबई; तथा
- (v) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), सीमा शुल्क गृह, चेन्नै

के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/46/2004-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2004

No. 136/2004-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 817(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Central Excise (Adjudication), New Customs House, Air Cargo Complex, New Delhi, to act as,—

- (i) Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi;
- (ii) Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, New Customs House, New Delhi;

- (iii) Commissioner of Customs (Import and General), Indira Gandhi International Airport, New Delhi;
- (iv) Commissioner of Customs (Imports), New Customs House, Ballard Estate, Mumbai; and
- (v) Commissioner of Customs (Imports), Customs House, Chennai,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notices pertaining to M/s. Lokesh Garments Pvt. Ltd., 315, Patparganj Industrial Area and A-1, Sector-59, NOIDA (U.P.) and Others, issued, *vide*, DRI F. No. 50D/85/2003-CI, dated the 27th August, 2004, by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, I.P. Estate, New Delhi.

[F. No. 437/46/2004-CUS.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2004

सं. 137/2004-सीमा शुल्क (गै. टै.)

सा.का.नि. 818(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली मण्डलीय यूनिट, बी-4 छठा तल, पर्यावरण भवन, के. स. का. परिसर लोदी रोड, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10 सितम्बर, 2004 को जारी किए गए पत्र सं. डी.आर.आई/23/42/2003-डी.जेड.यू.-पार्ट/3242-3545 के तहत मै. कार्तिक ओवरसीज लि. कार्यालय सं. 1 कार्पोरेट केन्द्र, सी-48, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली एवं अन्यो से संबंधित कारण बताओ नोटिस संबंधी मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (न्याय निर्णयन), एयर कार्गो परिसर, न्यू कस्टम हाऊस, नई दिल्ली को एतद्वारा निम्नलिखित के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करता है :—

- (i) सीमा शुल्क आयुक्त, थलीय आधान डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली;
- (ii) सीमा शुल्क आयुक्त, (बन्दरगाह), चैन्नई;
- (iii) सीमा शुल्क आयुक्त, अहमदाबाद;
- (iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चैन्नई-III; और
- (v) सीमा शुल्क आयुक्त जामनगर।

[फा. सं. 437/50/2004-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2004

No. 137/2004-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 818(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Central Excise (Adjudication), Air Cargo Complex, New Customs House, New Delhi, to act as,—

- (i) Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi;
- (ii) Commissioner of Customs (Port), Chennai;
- (iii) Commissioner of Customs, Ahmedabad;
- (iv) Commissioner of Central Excise, Chennai-III; and
- (v) Commissioner of Customs Jamnagar,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s Kartik Overseas Ltd., Office No. 1, Corporate Centre, C-48, Lajpat Nagar-2, New Delhi and Others issued, *vide*, F. No. DRI/23/42/2003/DZU-Pt/3242-3545, dated the 10th September, 2004 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit, B-4, 6th Floor, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi.

[F. No. 437/50/2004-CUS.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2004

सं. 138/2004 सीमा शुल्क (गै. टै.)

सा.का.नि. 819(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली मण्डलीय यूनिट, बी-4 छठा तल, पर्यावरण भवन, के. स. का. परिसर लोदी रोड, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2004 को जारी किए गए पत्र सं. डी.आर.आई./23/42/2003-डी.जेड.यू.-पार्ट/3296-3331 के तहत में, बिल्डेक्स मेटल्स, 541, प्रथम तल, डबल स्टोरी, न्यू राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली एवं अन्यो से संबंधित कारण बताओ नोटिस संबंधी मामलों के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (न्याय निर्णयन), एयर कार्गो परिसर, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली को एतद्द्वारा निम्नलिखित के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करता है :—

- (i) सीमा शुल्क आयुक्त, थलीय आधान डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली;
- (ii) सीमा शुल्क आयुक्त, (बन्दरगाह), चैन्नई;
- (iii) सीमा शुल्क आयुक्त, जामनगर;
- (iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, फरीदाबाद;
- (v) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त; विशाखापत्तनम-II; और
- (vi) सीमा शुल्क आयुक्त (बन्दरगाह) कोलकाता।

[फा. सं. 437/51/2004-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2004

No. 138/2004-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 819(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Central Excise (Adjudication), Air Cargo Complex, New Customs House, New Delhi, to act as :—

- (i) Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi;
- (ii) Commissioner of Customs (Port), Chennai;
- (iii) Commissioner of Customs, Jamnagar;
- (iv) Commissioner of Central Excise, Faridabad;
- (v) Commissioner of Customs and Central Excise, Vishakhapatnam-II; and
- (vi) Commissioner of Customs (Port), Kolkata,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Buildex Metals, 541, 1st Floor, Double Storey, New Rajinder Nagar, New Delhi and Others, issued, *vide*, F. No. DRI/23/42/2003/DZU-Pt/3296-3331, dated the 1st September, 2004 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit, B-4, 6th Floor, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi.

[F. No. 437/51/2004-CUS-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.